

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 403]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 सितम्बर 2015—आश्विन 8, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 30 सितम्बर 2015

क्र. बी-बी-11-03-2015-चौदह-2.—मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक बी-11-03-2015-चौदह-2, दिनांक 15 मई 2015 द्वारा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अन्तर्गत मौसम खरीफ 2015 हेतु पटवारी हल्का स्तर की अधिसूचना जारी की गई थी, जारी अधिसूचना में जिला छिन्दवाड़ा, शाजापुर, सिंगरोली, विदिशा, इन्दौर एवं शहडोल के ग्रामों की संलग्न संशोधित सूची अनुसार उनके समक्ष दर्शाई गई फसलों के लिये राज्य शासन द्वारा परिभाषित क्षेत्र घोषित किया जाता है. मौसम खरीफ वर्ष 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित अधिसूचना जारी की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची:—							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी का नाम	मुख्यालय	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
छिन्दवाड़ा	हरई	बटकाखापा	3	ओझलदाना	-	-	-	-	-	मक्का	-
			4	गांगई	-	धान	सोयाबीन	-	-	मक्का	-
			5	अतरिया	-	-	-	-	-	मक्का	-
			7	कामठी	-	-	-	-	-	मक्का	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			8	भोईपार	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			9	चुरीसाजवा	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			10	सालढाना	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			11	बटकाखापा	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			12	आचलकुण्ड	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			13	बॉका	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			14	बेलपठार	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			15	दामाखोह	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			16	झिरना	-	-	सोयाबीन	-	मक्का	-
			17	कोठिया	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			18	मनकवाडी	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			19	सगोनिया	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			20	धनौरा	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			21	भुमका	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			22	जिल्हेरा	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			23	भालपानी	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			24	खिरदा	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			25	अण्डोल	-	धान	सोयाबीन	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			26	पलानी	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			27	तिन्सई	-	-	-	-	मक्का	-
			28	थारवाँ	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			29	मडई	-	-	-	-	मक्का	-
			30	चोपना	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				
			31	देवरी	-	धान	-	-	मक्का	-
						असिंचित.				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-,-	-,-	-,-	4	खैराही	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	5	कर्सुआलाल	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	6	नगवां	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	7	मलगा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	8	बेतरिया	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	9	कोटिया	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	10	कर्सुआराजा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	11	रैला	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	12	चौरा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	13	सखौहा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	14	सिंगाही	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	15	अमिलवान	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	16	कथुरा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	17	मधुरा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	18	रजमिलान	धान सिं.	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	19	भुड़कुड़	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	माड़ा	40	मलगा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	सरई	निवास	6	कुचवाही	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	सरई	22	पिपरी	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	23	पिपरखाड़	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	24	पिड़रा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	25	कठदहा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	26	पुरैल	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	27	गन्नई	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	28	सर्राटोला	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	29	बरका	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	30	महरैल	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	31	गोड़बहरा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	32	साजापानी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	33	झारा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	34	वेलगांव	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	35	दुधमनियो	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	36	समूद	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	37	इटमा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	38	कोनी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	39	नौढ़िया	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	40	घोघरा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	41	सरई	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	42	पोखरीटोला	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	43	दियागड़ई	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	खनुआनया	44	ओवरी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	45	मकरी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	46	पचौर	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	47	बकहुल	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-,-	-,-	-,-	48	गजराबहरा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	49	गोरा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	50	खनुआनया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	51	जमगड़ी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	52	बंधा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	53	तेंदुहा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	54	भलयाटोला	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	55	धिरौली	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	56	झलरी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	57	बजौड़ी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	58	ताल	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	59	भैसाबूंडा	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	60	लंघाडोल	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	61	डोगरी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	62	मझौलीपाठ	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	चितरंगी	कोरावल	1	खम्हरिया	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	2	बहेरी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	3	खाम्हाड़ीह	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	4	नेवारी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	5	कुलकवार	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	6	रेही	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	7	करौदिया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	8	बकिया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	9	बीछी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	10	नैकहवा	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	11	फुटहड़वा	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	12	गोपला	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	13	माचीकला	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	14	लोहदा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	15	क्योटली	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	16	बडरम	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	17	तमई	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	18	पड़री खुर्द	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	19	नोडिहवा	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	20	खैड़ार	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	21	बरवाड़ीह	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	मौहरिया	22	लमसरई	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	23	ठटरा	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	24	रमड़िहा	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	25	डिघवार	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	26	पोंड़ी	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	27	कुस्हुइया	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	28	देवरा	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	29	देवरी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,-	-,-	-,-	30	कुसाही	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-,,-	-,,-	-,,-	31	नौगई	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	32	मौहरिया	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	33	गेरूई	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	34	घोघरा	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	35	खम्हनियाँ	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	36	सूदा	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	37	कुडैनिया	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	38	दार	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	39	झरकटिया	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	चितरंगी	40	मिसिरगवां	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	41	शिवपुरवा	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	42	चितावलखुर्द	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	43	ओड़नी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	44	खटाई	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	45	बगदराकला	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	46	चितरंगी	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	47	सुलखानकला	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	48	बूढ़ाडोल	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	49	वोदाखूँटा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	50	शेरवा	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	51	कुडैनिया-1	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	52	देवगांव	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	53	पोड़ी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	54	बड़कुड़	(-)	(-)	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	55	गांगी	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	56	खैरा	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	57	धरौलीकला	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	58	विजयपुर	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	59	गड़वानी	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	60	रजदहा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	61	पड़री	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	62	बरहट	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	63	वर्दी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	64	कोस्सर पैपखार	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	65	धानी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	66	नौगई	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	67	खुरमुचा	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	68	झोंको	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	69	खम्हरिया कला	(-)	धान असिं.	तुअर	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	70	कर्थुया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	71	पराई	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	72	धवई	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	73	वैरदह	(-)	धान असिं.	तुअर	मक्का	(-)	(-)	
-,,-	-,,-	-,,-	74	करलो	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
-,,-	-,,-	-,,-	75	गीर	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	76	देवरी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	77	दरवारी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	78	पिड़रिया	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	दुधमनिया	79	झाला	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	80	नवानगर	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	81	वरगवां	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	82	बगदरी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	83	भौड़ार	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	84	पतेरी	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	85	चिनगो	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	86	घरसड़ा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	87	खरकटा	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	88	सेमुआर	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	89	कसर	(-)	धान असिं.	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	90	महदेईया	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	91	नोढ़िया	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	92	गोरबी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	93	कौला	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	94	वरवानी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	95	विरकुनियाँ	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	96	पिपरा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	97	पोड़ी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	98	दुधमनियाँ	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	99	बसनिया	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	100	मटिहनी	(-)	(-)	तुअर	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	101	खोखवा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	102	वगैया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	103	कपूरदेई	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	104	कतरिहार	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	105	सिंधार	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	106	बैरिहवा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	107	सिलफोरी	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	108	चकरिया	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	109	अजगुढ़	(-)	(-)	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	110	खिरवा	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	111	चतरी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)
-,,-	-,,-	-,,-	112	चुरकी	(-)	धान असिं.	(-)	मक्का	(-)	(-)	(-)

## राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना मौसम खरीफ 2015 की पटवारी हल्का स्तर की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी का नाम	मुख्यालय	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
विदिशा	कुरवाई	कुरवाई-1	45	कूल्हन		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			46	विशनपुर		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			47	पीकलोन		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			48	लेटनी		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			50	नगवासा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			51	देवली		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			52	सिरनोटा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			53	भैसवाहा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			54	गुदावल		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			55	कौसी		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			42	वजीराबाद		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			32	वरुअल		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			33	तलापार		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			36	बरेठा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
	49	सिरावली		-	-	सोयाबीन	-	-	-		
	गुलाबगंज	गुलाबगंज-1	20	मेहरूखेडी		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			21	मूंडरागुनआ		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			22	चाठोली		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			23	सुआखेड़ी		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			24	सिनहार		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			25	नादौर		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			26	मढीपुर		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			27	अटारीखेजडा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			28	दीघोरा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			29	अम्बार		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			30	खेजडा पहरात		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			31	नौलास		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			32	बड़वा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			33	बरखेडा गंधीर		-	-	सोयाबीन	-	-	-
	34	झिरनियां		-	-	सोयाबीन	-	-	-		
	पठारी	पठारी-1	1	शहरवासा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			2	दतेरा		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			3	उकावद		-	-	सोयाबीन	-	-	-
			4	श्यामपुरा गुदावल		-	-	सोयाबीन	-	-	-
5			भालचामोरा		-	-	सोयाबीन	-	-	-	
6			दुधावरी		-	-	सोयाबीन	-	-	-	
7			मनेशा		-	-	सोयाबीन	-	-	-	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	पठारी	पठारी-1	8	सिमरधान	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			9	बन्द्रावठा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			10	धामोनीपुरा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			11	बाबईखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			12	रामगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			13	खजूरियापठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			14	विसलौनी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			15	जाजपोन	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			16	पठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			17	छपारा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			18	मथुरापुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			19	बरखेडापठारी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			20	बडोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
			21	कांकलखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-

अधिसूचना में प्रकाशित होने से छूट गये पटवारी हल्कों की सूची

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल, भोपाल  
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

मौसम खरीफ वर्ष 2015-2016

100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित

क्र.	जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी मुख्यालय का नाम	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	इन्दौर	इन्दौर	इन्दौर	23	अवसादखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
2	-	-	-	26	लिंबोदी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
3	-	-	-	27	बिलावली	-	-	सोयाबीन	-	-	-
4	-	-	राउ	18	राउ	-	-	सोयाबीन	-	-	-
5	-	-	भिचोली	48	बेगमखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
6	-	-	-	51	अवसादबुजुर्ग	-	-	सोयाबीन	-	-	-
7	-	-	-	77	पिवडाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
8	-	-	-	79	कम्पेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
9	-	-	खुडैल	82	खण्डेल	-	-	सोयाबीन	-	-	-
10	-	देपालपुर	बेटमा 3	55	चटवाडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
11	-	-	-	56	चिकलौदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
12	-	-	-	58	शिवगढ़	-	-	सोयाबीन	-	-	-
13	-	महू	महू-1	2	सोनवाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
14	-	-	-	5	नावदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
15	-	-	-	10	टिही	-	-	सोयाबीन	-	-	-
16	-	-	-	13	अवलाय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
17	-	-	-	16	सिलोदिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
18	-	-	-	21	बेरछा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
19	-	-	-	25	अकवी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
20	-	-	मानपुर	30	मेण	-	-	सोयाबीन	-	-	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
21	-	-	-	31	यशवन्तनगर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
22	-	-	-	32	राजपुराकुटी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
23	-	-	-	37	दुर्जनपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
24	-	-	-	38	शेरपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
25	-	-	-	39	जाफराबाद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
26	-	-	-	40	कांकरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
27	-	-	-	41	मानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
28	-	-	-	42	रामपुरियाखुर्द	-	-	सोयाबीन	-	-	-
29	-	-	-	35	जाकूखेडी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
30	-	-	-	33	हासलपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
31	-	-	-	36	सिहोद	-	-	सोयाबीन	-	-	-
32	-	-	-	41	मानपुर	-	-	सोयाबीन	-	-	-
33	-	-	-	43	कोलानी	-	-	सोयाबीन	-	-	-
34	-	-	-	44	कालीकिराय	-	-	सोयाबीन	-	-	-
35	-	-	-	45	गोकल्याकुण्ड	-	-	सोयाबीन	-	-	-
36	-	-	सिमरोल-3	56	कोदरिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
37	-	-	-	73	कुलथाना	-	-	सोयाबीन	-	-	-
38	-	-	-	57	गुजरखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
39	-	-	-	63	दतोदा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
40	-	-	-	67	जोशीगुराडिया	-	-	सोयाबीन	-	-	-
41	-	-	-	68	घोसीखेडा	-	-	सोयाबीन	-	-	-
42	-	-	-	70	बाईग्राम	-	-	सोयाबीन	-	-	-
43	-	सांवेर	-	6	गुलावट	-	-	सोयाबीन	-	-	-

कार्यालय अधीक्षक भू-अभिलेख जिला शहडोल म. प्र. संशोधित सूची  
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना खरीफ हेतु अधिसूचित की जाने वाली फसलवार पटवारी हल्कों की संशोधित सूची

मौसम	खरीफ	वर्ष	2015-2016	100 हेक्टर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली चयनित फसलों की हल्कावार सूची							
जिला	तहसील	रा.नि.मं. का नाम	पटवारी हल्का नं.	पटवारी का नाम	मुख्यालय	धान सिंचित	धान असिंचित	सोयाबीन	तुअर	मक्का	बाजरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
शहडोल	बुढार	बुढार	00001	नौगई रा.प.ह. नं. 1	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00002	चंगोरा प.ह. नं. 2	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00003	छांटो उर्फ	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00004	बिरूहली	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00005	चाका प.ह.नं. 5	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00006	खम्हरौध	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00007	बिछिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00008	अतरिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00009	रामपुर	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00010	पडरिया	-	धान असिंचित	-	-	-	-	
			00011	बटुरा प.ह.नं. 11	-	धान असिंचित	-	-	-	-	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			00012	बकहो	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00013	सावो प.ह.नं. 13	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00014	जरवाही प.ह.नं. 14	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00015	पकरिया प.ह.नं. 15	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00016	सेमरा प.ह.नं. 16	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00017	कटकोना प.ह.नं. 17	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00018	बुढार प.ह.नं. 18	-	धान असिंचित	-	-	-	-
	धनपुरी		00023	गोपालपुर प.ह.नं. 23	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00024	सरईकांपा प.ह.नं. 24	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00025	धनपुरी प.ह.नं. 25	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00026	सिलपरी प.ह.नं. 26	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00027	बेम्हौरी प.ह.नं. 27	-	धान असिंचित	-	-	-	-
			00028	बन्डी खुर्द प.ह.नं. 28	-	धान असिंचित	-	-	-	-